

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii).

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1965/फाल्गुन 6, 1886

No. 37] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1965/PHALGUNA 6, 1886

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 24th February, 1965

S.O. 709.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Wealth-tax (Amendment) Act, 1964 (46 of 1964), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1965 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. WT-1/1965/F. No. 3/1/65-WT.]

JAGDISH CHAND. Dy. Secy.

